



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 16, 2019  
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 09, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/9507** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Bhadara has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Bhadara. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,  
Ujjwal Rathore,  
Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगरपालिका भादरा जिला हनुमानगढ (राज०)

प्रपत्र 'क'  
वार्डों का विवरण

वार्ड नं. 1

शमशान भूमि चेताराम के मकान से चलकर उत्तर की समस्त आबादी शामिल कर मकान बन्शीलाल ब्राह्मण को शामिल कर बाड़ी रमेश स्वामी को लेते हुए शमशेर खां नीलगर को छोड़ते हुए इन्द्रा कॉलोनी की समस्त आबादी को शामिल कर नोहर हिसार बाईपास से मनीराम चमार व सज्जन टी स्टाल गणपति होटल को शामिल कर कुरड़ा तेली को छोड़ते हुए नोहर बाईपास चलकर परमाराम गोदारा कॉलेज को छोड़ते हुये हनुमान नगर को लेते हुये इण्डस्ट्रीज ऐरिया को छोड़ते हुए चौधरी ज्ञानसिंह कृषि फार्म को लेते हुए श्री कृष्ण सरपंच के मकान को छोड़ते हुए रिलेकेन्द्र को शामिल कर सिरसा रोड़ क्रॉस कर पूर्व की ओर प्रतापसिंह को लेते हुए अलीशेर को छोड़ते हुए मस्जिद को शामिल कर कादर खां को छोड़ते हुए राजकीय स्कूल को शामिल कर गोगामेड़ी को छोड़ते हुए राजकीय स्कूल वाली गली से पूर्व की ओर चलकर अजीज व आमिन को छोड़ते हुए मुखराम को शामिल करते हुए नानूराम को छोड़ते हुए सीधे पूर्व की ओर चलकर रणसिंह जाट को शामिल करते हुए बुधराम मीणा व श्रवणसिंह सांखला की दुकान को छोड़ते हुए इलाही बक्स को शामिल करते हुए उत्तर की ओर शंकरलाल मीणा को छोड़ते हुए सतपाल को शामिल कर मूलाराम को छोड़ते हुए शमशान भूमि तक।

## वार्ड नं. 2

श्री गुलाब पुत्र श्री मामदीन तेली से पूर्व की ओर चलते हुए प्रताप सिंह को छोड़ते हुए अलीशेर के मकान को शामिल करते हुए मस्जिद को छोड़ते हुए कादर खान को शामिल करते हुए सीधे पूर्व की ओर राजकीय स्कूल को छोड़ते हुए गोगामेड़ी को शामिल करते हुए स्कूल वाली गली से पूर्व की ओर अजीज व आमिन के मकान को शामिल करते हुए मुखराम व नानूराम के मकान को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए सदीक खां तेली को शामिल करते हुए विद्या भारती स्कूल को छोड़ते हुए मुस्ताक खां तेली की दुकान को तेले हुए रामधारी चाचाण के नोहरे को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर चलकर लिच्छीराम आटा चक्की व झोरड़ सर्विस स्टेशन को शामिल कर अनाज मण्डी को छोड़ते हुए लंगा सर्विस स्टेशन को शामिल करते हुए मदन सैनी के नोहरे को छोड़ते हुए सिरसा रोड़ उत्तर की ओर चलकर मनोज धर्मकांटा व प्रदीप चाचाण कॉलोनी को शामिल करते हुए श्री कृष्ण सरपंच को छोड़ते हुए गुलाब पुत्र श्री मामदीन तेली तक।

## वार्ड नं. 3

इन्डस्ट्रीयल ऐरिया से चलकर बिमला समाधि की आबादी को लेते हुए चौधरी कृषि फार्म हाऊस को छोड़ते हुए श्री कृष्ण सरपंच के मकान को शामिल कर प्रतापसिंह, गुलाब पुत्र मामदीन को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए प्रदीप चाचाण कॉलोनी व मनोज धर्मकांटा को छोड़ते हुए मदन सैनी के नोहरे को शामिल करते हुए लंगा सर्विस स्टेशन को छोड़ते हुए अनाज मण्डी को शामिल कर झोरड़ सर्विस स्टेशन को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर चलकर बाल्मिकी चौक से पूर्व की ओर चलकर माननीय मुन्सिफ साहब के क्वार्टर को शामिल करते हुए देवत राम एसडीओ को व कृषि उपज मण्डी समिति को छोड़ते हुए नगरपालिका कार्यालय को शामिल करते हुए राजकीय हायर सैकेण्डरी स्कूल व खेल मैदान को छोड़ते हुए तहसील कार्यालय व पोस्ट ऑफिस को शामिल करते हुए ईदगाह व पुलिस स्टेशन को छोड़ते हुए गांधी प्याऊ को शामिल कर रेलवे फाटक पार कर गोपाल कुम्हार को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर रेलवे लाईन के साथ-साथ चलकर कामधेनु कॉलोनी व वाटर वर्क्स शामिल करते हुए इन्डस्ट्रीयल ऐरिया तक।

## वार्ड नं. 4

कृषि उपज मण्डी समिति को लेते हुए देवत राम एसडीओ व सैनी जनरल स्टोर को छोड़ते हुए मदनलाल नाई व हुकमाराम स्वामी को लेते हुए सुरेश शर्मा को छोड़ते हुए बनवारीलाल, हेमराज ऐचरा को शामिल करते हुए भीखाराम शर्मा व सीताराम मास्टर को छोड़ते हुए ताराचन्द शर्मा को लेते हुए झमनलाल शर्मा मील को छोड़ते हुए एसबीआई बैंक को शामिल करते हुए महिला बाल कल्याण जमीन को छोड़ते हुए बंशीलाल नाई की दुकान को लेते हुए पूर्णचन्द नाई सुविको इलैक्ट्रीक को छोड़ते हुए मैन रोड़ पर आकर पश्चिम की ओर जोधराज आटा चक्की को शामिल कर अनिल पुत्र श्री जीवण गोयल की दुकान को छोड़ते हुए बजरंगलाल सैनी व रेलूमल सिन्धी कटला को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर मुड़कर जाकिर खोखर को छोड़ते हुए सुलेमान पोस्ट मास्टर को शामिल कर हिदायत खां को छोड़ते हुए रतन लाल गोल्याण व दीनानाथ गोल्याण को शामिल कर बल्लूराम गोल्याण व कासू खां को छोड़ते हुए संजय फतेहपुरिया को शामिल कर भूपसिंह वकील व रफीक रेंजर को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर चम्पालाल लुहारीवाला को शामिल कर मदीना मस्जिद व शंकर लाल लुहारीवाला को छोड़ते हुए दड़बावालों की दुकान को शामिल कर सतवीर पण्डित व दलीप बैनीवाल की दुकान को छोड़कर उत्तर की ओर चलकर चिरंजीलाल बाड़ा व कानसिंह सरदार को शामिल कर

रावतमल कटला व गांधी पार्क को छोड़कर डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को शामिल करते हुए पन्नालाल पटावरी की दुकानों को लेते हुए अशोका मेडिकल को छोड़ते हुए सरकारी हॉस्पिटल को लेते हुए राजकीय हायर सैकेण्डरी स्कूल व दीनदयाल खेमका को छोड़ते हुए आर्य समाज को शामिल करते हुए कृषि उपज मण्डी तक।

#### वार्ड नं. 5

सतवीर पण्डित की दुकान से दक्षिण की ओर चलकर दलीप बैनीवाल, डूम सागर व भगवानदास पेन्टर को छोड़ते हुए सर्राफों की दुकानों, पेट्रोल पम्प व सुभान खां हलवाई रहमान मिष्ठान भण्डार की दुकान से पूर्व की तरफ साहवा रोड़ से फाटक की ओर चलकर गुलशन व गोगामेड़ी को शामिल कर रेल्वे लाईन व कारगवाल भवन को छोड़ते हुए सुभाष जोगीवाला की दुकान को शामिल कर उत्तर की ओर वेंकटलाल मास्टर जी की दुकानों को छोड़ते हुए रामकुमार डोभीवाला को शामिल कर बिजारणियां क्लॉथ स्टोर को छोड़ते हुए मदनलाल कलानावाले व अलियास मास्टर तथा जयसिंह नाई को शामिल कर नत्थूखां की दुकान को छोड़ते हुए संजय चौक व गोविन्द पनवाड़ी को शामिल कर सोहनलाल नाई को छोड़ते हुए कैलाश डॉ. व बृजमोहन महेश्वरी को शामिल कर लियाकत खां व गुलाब खां को छोड़ते हुए जुगल राठी को लेते हुए पवन फतेहपुरिया को छोड़ते हुए शीतल सिंधी को लेते हुए पुरुषोत्तम कुम्हार को छोड़ते हुए नाईयों की मस्जिद को शामिल कर रफीक रेंजर व चम्पालाल लुहारीवाला को छोड़ते हुए शंकर लाल लुहारीवाला को शामिल कर सतवीर पण्डित तक।

#### वार्ड नं. 6

गोपाल कुम्हार की दुकान से पूर्व की ओर चलते हुए पुलिस स्टेशन शामिल कर गांधी प्याऊ को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर ईदगाह व खेल मैदान को लेते हुए पूर्व की ओर पोस्ट ऑफिस, तहसील कार्यालय व नगरपालिका कार्यालय को छोड़ते हुए राजकीय विद्यालय को लेते हुए सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ते हुए अशोका मेडिकल को शामिल करते हुए डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को छोड़ते हुए गांधी पार्क को शामिल करते हुए बीजेपी कार्यालय संजीव बैनीवाल को छोड़ते हुए सुभाष मेडिकल को लेते हुए सरदार कानसिंह को छोड़ते हुए रावतमल कटला बीएसपी कार्यालय को लेते हुए सर्राफों की दुकानों को छोड़ते हुए भगवान दास पेन्टर को लेते हुए रेल्वे लाईन को क्रॉस कर रेलवे पॉवर हाऊस को शामिल करते हुए किशनलाल यादव व सुन्दर लाल तंवर को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर चलते हुए जीआरपी थाना रेलवे को शामिल कर अग्रसैन कॉलेज व किशन नाई को छोड़ते हुए तथा सुभाष पंजाबी को छोड़ते हुए मोहनलाल खाती को शामिल कर ओमजी नाई के नोहरे को छोड़ते हुए सीधे दक्षिण की ओर चलते हुए रामनिवास शर्मा को छोड़ते हुए कैलाश शर्मा को शामिल कर शंकरलाल सैनी को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर सीधे चलते हुए हाथीपुरा बास की आबादी को छोड़ते हुए बिजली बोर्ड की पीछे की दिवार को शामिल करते हुए हरदत्तसिंह राठौड़ को व सीपी त्रिवेदी को छोड़ते हुए बीजली बोर्ड की दिवार के साथ-साथ चलते हुए संजु नाई को छोड़ते हुए सीधे नहर को छोड़ते हुए साहवा बाईपास मैन रोड़ से उत्तर की ओर चलते हुए बिजली बोर्ड के पीछे की आबादी को शामिल कर परणामी कॉलेज व नहर को छोड़ते हुए बिजली बोर्ड को शामिल कर महावीर खाती व समस्त आदर्श बस्ती रेलवे फाटक की आबादी को शामिल कर नहर को छोड़ते हुए फाटक को क्रॉस कर गोपाल कुम्हार तक।

## वार्ड नं. 7

सुधीर भारद्वाज मार्ग की पूर्व की ओर चलते हुए गौशाला की उत्तर दिशा की भूमि को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा की भूमि को व संजू नाई के मकान को शामिल करते हुए बिजली बोर्ड की पीछे की दिवार के साथ-साथ चलते हुए व बिजली बोर्ड की बाऊण्डी को छोड़ते हुए सीधा पूर्व की ओर राजेन्द्र इन्दोरिया, राजेश स्वामी व नन्दलाल सैनी के नोहरे को शामिल कर बाबूलाल डाकोत को छोड़ते हुए रामनिवास की दुकान को शामिल कर मधु शर्मा व मोहन खाती को छोड़ते हुए डॉ. ओमप्रकाश नाई को शामिल कर पूर्व की ओर रेल्वे की दिवार व सुभाष पंजाबी को छोड़ते हुए सीधा दक्षिण की ओर चलकर रजाक खां दमामी व राजू सिन्धी को शामिल कर संजीव त्यागी को छोड़ते हुए श्याम कुंज को शामिल कर सीधा चलकर गीता सैनी व हनुमान भाटी को शामिल कर मुरली पुत्र नोरंगलाल को छोड़ते हुए रामस्वरूप शर्मा को लेते हुए कुरड़ाराम शर्मा को छोड़ते हुए रामू रेगर व पवन को शामिल कर यासीन व डूम सागर को छोड़कर हुसैन खां को शामिल कर रामू पेटवान को छोड़कर सीधा पश्चिम की ओर चलकर अमरसिंह शेखावत को शामिल कर गिरधारी लाल सोनी को छोड़ते हुए इस्लाम को लेते हुए सीधे पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए नेतराम मेघवाल मास्टर के प्लाट को छोड़ते हुए विरेन्द्र सिंह थानेदार को शामिल करते हुए रमेश राजपूत को छोड़ते हुए सुभाष खटीक को लेते हुए सीधे पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए लाठर भवन को छोड़ते हुए काशीराम मास्टर के मकान को शामिल करते हुए जाखल फार्म हाऊस को छोड़ते हुए नहर को छोड़ते हुए साहवा रोड़ बाईपास से उत्तर की ओर चलकर सीधे सुधीर भारद्वाज मार्ग गौशाला की भूमि तक।

## वार्ड नं. 8

सुभाष पंजाबी को शामिल कर रेल्वे की दिवार को छोड़ते हुए किशनलाल नाई को शामिल कर सीधा पूर्व की ओर चलकर किशनलाल यादव को शामिल कर रेल्वे पावर हाऊस व रेल्वे लाईन को छोड़ते हुए किशोर हीर को शामिल कर मीणा मुरारीजी व बिसायती भवन आरिफ व लियाकत को शामिल कर रेल्वे लाल कुआं व भानीराम कुम्हार को छोड़ते हुए नत्थू छिम्पा को छोड़कर गुलाम हुसैन जोली को शामिल कर गोदावरी वाटिका को छोड़ते हुए लाल मोहम्मद जन व श्योक्त खां किलाणिया को शामिल कर सीधा ज्यान मोहम्मद व इकबाल को लेते हुए मस्जिद को व सलीम किलाणिया को छोड़ते हुए अजाज नबी को लेते हुए डूम सागर को शामिल कर आजम खां की बाड़ी को छोड़ते हुए नई आबादी शामिल कर व नई कॉलोनी शर्मा को लेते हुए नहर बाऊण्डी से उत्तर की तरफ चलकर देवतराम एसडीओ को लेते हुए काशीराम मास्टर को छोड़ते हुए सीधा पूर्व की ओर चलकर रामपाल मास्टर को शामिल कर इश्वर एईएन को छोड़ते हुए गिरधारीलाल सोनी को शामिल कर अमरसिंह शेखावत को छोड़ते हुए सीधा पूर्व की ओर चलकर रामू पेटवान से डूम सागर तक यासीन को शामिल कर कुरड़ाराम शर्मा को लेते हुए हनुमान भाटी को छोड़ते हुए मुरली पुत्र नोरंगलाल व संजीव त्यागी को शामिल कर श्याम कुंज को छोड़ते हुए सुभाष पंजाबी तक।

## वार्ड नं. 9

सलीम पुत्र श्योक्त किलाणिया को शामिल करते हुए अजाज नबी को छोड़ते हुए सकील पुत्र मुस्ताक खां को लेते हुए इकबाल खां, इन्तजार खां को छोड़ते हुए मस्जिद को शामिल कर लाल मोहम्मद जन व गुलाम हुसैन जोली को छोड़कर गोदावरी वाटिका, नत्थू छिम्पा, रेल्वे लाल कुआं व भानीराम कुम्हार को शामिल कर रेल्वे की दिवार से चलते हुए डॉ. इस्पाक को शामिल कर हुकमाराम को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर ताज मोहम्मद सीआई व मुस्ताक खां, महबूब को छोड़ते हुए उम्मेद

खां पुत्र यूसुफ खां व मुमताज खां पुत्र सादूले खां को शामिल कर शौकिन पुत्र गन्नी खां को छोड़ते हुए इकबाल खां को शामिल कर इब्राहीम खां को छोड़कर भंवरू खां जैनाण पूर्व पार्श्व को शामिल कर मैजर खां को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर चलकर बाबू खां जैनाण को शामिल कर रिडमस्त खां थानेदार को छोड़ते हुए महमूद खां टेलीफोन ऑपरेटर को शामिल कर आमीन खां नारिका को छोड़ते हुए युसुफ खां ठेकेदार को शामिल कर भंवरू खां इस्माईलखानी को छोड़ते हुए सीधा पश्चिम की ओर चलकर इन्तजार खां को शामिल कर नीजू खां की बाड़ी व फूसे खां को छोड़कर साहवा रोड़ से उत्तर की ओर चलकर नई कॉलोनी व आजम खां की बाड़ी को लेते हुए डूम सागर होते हुए सलीम पुत्र श्योक्त किलाणिया के घर तक।

#### वार्ड नं. 10

हुकमाराम को शामिल करते हुए पूर्व की ओर चलकर रेल्वे लाईन को छोड़ते हुए आमीन धोबी व श्योरा कोठी को शामिल करते हुए रेल्वे लाईन को छोड़ते हुए असलम फोरेस्टर, सरीफ धोबी व छिम्पा मस्जिद को लेते हुए रेल्वे लाईन को छोड़ते हुए हाजी सरवरदीन छिम्पा व सन्नू खां साहबखानी को शामिल करते हुए रेल्वे फाटक को छोड़ते हुए साहवा रोड़ की दक्षिण की आबादी को छोड़कर मनीर सिक्का व इब्राहीम सिक्का को शामिल कर गुलाम मोहम्मद लुहार को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा में पतली गली से सिकन्दर खां पेन्टर को शामिल करते हुए लाल खां खोखर को छोड़ते हुए बशीर नसवाण, इस्पाक व नानू खां की दुकान को शामिल करते हुए नत्थू लुहार व मंगतू खां मनीयार को छोड़ते हुए कायमखानी मदरसा व महमूद खां नारिका को शामिल करते हुए अदरीश वकील को छोड़ते हुए नत्थू खां को शामिल कर भंवरू खां जाटु को छोड़ते हुए अयूब पार्श्व को शामिल करते हुए बाबू खां साहबखानी को छोड़ते हुए भीखू खां जमालखानी व बाबू खां चायल को शामिल करते हुए कुरसेद खां साहबखानी को छोड़ते हुए अदरीश मलवाण को शामिल कर मुमताज खां पुत्र सादूले खां को छोड़ते हुए उम्मेद खां ऐलमाण को शामिल कर अलीम खां झुम्पेवाले को छोड़कर इकबाल नगरपालिका कर्मचारी व ताज मोहम्मद सीआई को शामिल कर नत्थू व डॉ. इस्पाक को छोड़ते हुए हुकमाराम के घर तक।

#### वार्ड नं. 11

गुलाम लुहार को शामिल करते हुए इब्राहीम सिक्का को छोड़ते हुए मंगतू मनियार को शामिल कर बशीर खान नसवाण को छोड़ते हुए लियाकत खां दुकानदार को शामिल कर मदरसा व राजकीय प्राथमिक विद्यालय को छोड़ते हुए इस्पाक खां नारिका को शामिल कर फैजू खां जैनाण को छोड़ते हुए मुमताज खां ठेकेदार व हाथीखानी का मोहल्ला तथा मस्जिद को शामिल करते हुए अल्लादीन खां ऐलमाण, कोठरी व हाकम अली फोजी को छोड़ते हुए मकबूल पुत्र कासू खां भाईखानी को शामिल करते हुए बशीर खां खानजादा व मुमताज खां जमालखानी को छोड़ते हुए हाजी बक्सू खां को शामिल कर नवाब खां को छोड़ते हुए लाल खां मलवाण व सदीक खां चैयरमैन को शामिल कर गुलामद खां को छोड़ते हुए ख्वाजा गरीब नवाज धर्मशाला को शामिल करते हुए नवाब खां रेल्वे व मोती खां भाईखानी को छोड़ते हुए ऐवज खां भाईखानी व मंगतू खां साहबखानी को शामिल करते हुए पानी की टंकी को छोड़ते हुए बिसारत खां खानजादा की दुकान को शामिल कर मोहन ठाकर व निजाम की दुकान को छोड़कर साहवा रोड़ की पूर्व की आबादी को छोड़ते हुए विक्रम स्वामी को शामिल कर इब्राहीम खां नसवाण को छोड़ते हुए सहाबा मस्जिद को शामिल करते हुए साहवा रोड़ की पूर्व की आबादी को छोड़ते हुए गुलाम मोहम्मद लुहार के घर तक।

## वार्ड नं. 12

भंवरू खां जाटु के घर को शामिल करते हुए इस्पाक नारिका को छोड़ते हुए अलादीन खां एलमाण व जैनाणों की गुहाड़ी को शामिल कर मुमताज खां ठेकेदार व मस्जिद को छोड़ते हुए हाकम अली फौजी को शामिल कर मकबूल भाईखानी को छोड़ते हुए इकबाल खां जलालखानी को शामिल कर मंगतू खां दुकानदार को छोड़ते हुए दिलावर खां जलालखानी को शामिल कर लियाकत खां नसवाण को छोड़ते हुए भगवानाराम को शामिल करते हुए किशन सेवदा व जानीराम सेवदा को छोड़ते हुए गोपीराम को शामिल कर जीवन माता मन्दिर को छोड़कर उत्तर दिशा में सुलतान चायल को शामिल कर फूलाराम खाती व रामस्वरूप सेवदा तथा अरसद खानजादा को छोड़कर आमीन नारिका को शामिल कर महमूद खां टेलीफोन ऑपरेटर को छोड़कर लियाकत खां पुत्र मोती खां को लेते हुए निजाम खां को छोड़कर रिडमस्त खां थानेदार को लेकर व भंवरू खां पार्षद को छोड़ते हुए मुमताज खां दायमखानी को लेते हुए यासीन खां वाटर वर्क्स, युसुफ खां, अयुब खां, बिशाल खां थानेदार व इल्ले खां पहाड़ियान व सकूर डॉक्टर को शामिल कर इकबाल खा साहबखानी को छोड़कर कुरसेद खां बिजली बोर्ड वाले को शामिल कर मुमताज खां पुत्र सादूले खां व अदरीश मलवाण को छोड़कर अहमद अली ठेकेदार को शामिल कर बाबू खां चायल, भीखू खां जमालखानी को छोड़कर अलियास मास्टर को शामिल कर मुस्ताक खां जमालखानी व अयुब खां पार्षद को छोड़कर शेर खां जाटु व भंवरू खां जाटु के घर तक।

## वार्ड नं. 13

लियाकत एलमाण व हनीफ खां एलमाण को शामिल कर युनस चायल को छोड़ते हुए सीधा दक्षिण दिशा की तरफ सबीर खां एलमाण को छोड़ते हुए मेजर खां एलमाण को शामिल कर बाबू लुहार को छोड़कर कासू खां एलमाण को शामिल कर मुस्ताक नगरपालिका कर्मचारी को छोड़कर मुमताज खां पत्थर बाड़ेवाले को शामिल कर भंवरू खां एलमाण को छोड़कर छोटू खां एलमाण को शामिल कर मेजर खां पीएचईडी को छोड़ते हुए निशार खां एलमाण को शामिल कर शौकिन खां को छोड़ते हुए भंवरू खां पार्षद को शामिल कर रंगीलाल की बाड़ी को छोड़ते हुए सीधा मटरू खां, बाबू खां, सदीक खां जमालखानी की बाड़ी को शामिल करते हुए सीधा पूर्व दिशा की तरफ निजू खां नारिका की बाड़ी व आबादी क्षेत्र को जोड़कर आजम खां की बाड़ी को छोड़कर इस्पाक खां के प्लाट, महनू हसलियावाले, भंवरू खा खानजादा, शेर मिर्जावाला व अरसद खां जलालखानी को शामिल करते हुए युसुफ खां ठेकेदार को छोड़ते हुए आमीन नारिका को छोड़कर फूलाराम खाती व रामस्वरूप सेवदा को शामिल कर सुलतान चायल को छोड़कर जीवन माता मन्दिर व पीछे की आबादी क्षेत्र व फौजी सजाद तथा अन्य को जोड़कर गोपीराम सेवदा को छोड़कर किसन सेवदा को शामिल कर भगवान दास सेवदा को छोड़कर लियाकत नसवाण को शामिल कर ऐमन खां चायल को छोड़कर भगतू दुकानदार को शामिल कर बशीर खानजादा व मकबूल भाईखानी को छोड़कर मुमताज खां जमालखानी व कालू लुहार को व नवाब खां भाईखानी को शामिल कर बक्सू खां भाईखानी को छोड़कर नवाब खां रेल्वे व मोती खां भाईखानी को शामिल कर धर्मशाला को छोड़ते हुए असगर खां एलमाण को शामिल कर युनस चायल को छोड़ते हुए लियाकत खां एलमाण के घर तक।

## वार्ड नं. 14

युनस चायल, मोतीराम कुम्हार, बीरबल कुम्हार को शामिल कर रूपाराम कुम्हार को छोड़ते हुए सीधा दक्षिण दिशा की तरफ गोपाल पटवारी को शामिल कर रामकुमार को छोड़कर दक्षिण दिशा की

तरफ साहवा रोड़ कल्याण भूमि व गौशाला को छोड़ते हुए पेट्रोल पम्प व बिसारत खां नारिका को शामिल कर सुलेमान खां नारिका को छोड़कर जुलाहों की ढाणी मस्जिद को शामिल कर लाला कबाड़ी को छोड़कर फौजी धर्मकांटा को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा में नहर रोड़ से बिजली विभाग की तरफ वाली रोड़ को छोड़ते हुए मैना तहसील कर्मचारी व दरगाह व नवाब मारवाड़ी का प्लाट तथा मकान को शामिल कर दलीप ढिलकीवाले को लेते हुए बाबू खां जमालखानी की बाड़ी को छोड़कर सीधा उत्तर की तरफ शौकिन खां एलमाण को शामिल कर निशार खां को छोड़ते हुए मेजर खां पीएचईडी को शामिल कर मुमताज खां पत्थर बाड़ेवाले को छोड़कर मुस्ताक खां नगरपालिका कर्मचारी, सतार नाई की तरफ की आबादी को जोड़कर कासू खां एलमाण को छोड़ते हुए बाबू खां लुहार को शामिल करते हुए मेजर खां एलमाण को छोड़ते हुए शबीर खां एलमाण को शामिल कर हनीफ खां एलमाण व ख्वाजा गरीब नवाज धर्मशाला को छोड़ते हुए युनस चायल के घर तक।

वार्ड नं. 15

साहवा रेल्वे फाटक से यासीन लुहार को शामिल कर सीधा पूर्व की रेल्वे लाईन के साथ-साथ चलते हुए चानणमल सैनी, चेताराम यादव, सांवरमल कुम्हार को लेते हुए रेल्वे लाईन को छोड़ते हुए पशु चिकित्सालय, महिला बाल विकास विभाग, नथवाना जोहड़ व रामरहिम कॉलोनी से सीधा कल्याण भूमि व श्याम मन्दिर तथा हाडाखेड़ा व बरकत कॉलोनी को शामिल करते हुए दक्षिण-पश्चिम कल्याण भूमि की दिवार के समानान्तर होते हुए गौशाला को शामिल करते हुए युनानी औषधालय को छोड़ते हुए सीधा उत्तर की ओर कल्याण भूमि की दिवार को लेते हुए साहवा रोड़ को क्रॉस करते हुए पश्चिम दिशा में पतली गली में ओम कुम्हार की मील व गोपाल पटवारी को छोड़कर उत्तर दिशा में गुर्जरों को शामिल करते हुए उत्तर में पतली गली में रूपराम कुम्हार को शामिल कर बिरबल कुम्हार को छोड़ते हुए पानी की टंकी को शामिल कर पूर्व की ओर उम्मेद ठाकर व मुकनसिंह को शामिल कर नियामत खां जलालखानी को छोड़ते हुए निजाम की दुकान को शामिल कर बिसारत के मकान को छोड़कर पार्क व इब्राहीम खां की मील को शामिल करते हुए सीधा उत्तर की ओर डॉ. किशन को शामिल कर साहाबा मस्जिद को छोड़ते हुए यासीन लुहार के घर से साहवा रेल्वे फाटक तक।

वार्ड नं. 16

साहवा रेल्वे फाटक से संतलाल महिपाल की दुकान को शामिल कर पूर्व की ओर रेलवे लाईन के साथ-साथ चलते हुए पंचमुखी बालाजी मन्दिर व मुखराम ढाका तथा झिण्डूराम कुम्हार को लेते हुए रेल्वे लाईन व समाध भवन को छोड़कर जीवणी सांसी व डाकोतो के मकान को शामिल कर सीधे पूर्व की तरफ समाध भवन की दिवार के चिपते गली में श्योकत खां सिक्का के नोहरे को व सदीक खां सिक्का व मुस्ताक खां सिक्का को लेते हुए शेर खां सिक्का को छोड़ते हुए सीधे उत्तर की तरफ चलते हुए रामस्वरूप सांसी व जयवीर नाई को शामिल करते हुए भादरसिंह मोठसरा व हिरालाल सोनी को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर महेन्द्र सैनी को छोड़ते हुए मदन मकड़ोलिया व जीवराजसिंह पुरोहित को शामिल कर शीतला मन्दिर को छोड़ते हुए उत्तर की तरफ मुड़कर सीधे सुभाष शर्मा नगरपालिका कर्मचारी को शामिल करते हुए अनील कौशिक व हरिराम सोनी को छोड़ते हुए चैनवाली धर्मशाला को शामिल कर खिराज मिस्त्री राजू डिम्पल, जयसिंह नाई, संजय चौक को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर नत्थू खां की दुकान को शामिल कर अलियास मास्टर की दुकान को छोड़ते हुए बिजारणिया क्लॉथ स्टोर को शामिल करते हुए राम कुमार डोभीवाला को छोड़ते हुए वैकटलाल मास्टर

जी को शामिल करते हुए सुभाष जोगीवाला की दुकान व प्याऊ को छोड़ते हुए कारगवाल भवन को शामिल कर साहवा रेल्वे फाटक से संतलाल महिपाल तक।

#### वार्ड नं. 17

मदन मकड़ोलिया के पूर्व के मकान को शामिल करते हुए महेन्द्र सैनी व जयसिंह कुम्हार को छोड़ते हुए बजरंग राठी राजेन्द्र राठी को लेते हुए रामकुमार शर्मा को छोड़ते हुए भगवानी देवी स्कूल को शामिल करते हुए मजीद खां व्यापारी व साबीर खां व्यापारी को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर पूर्णसिंह/मानसिंह राजपूत को शामिल करते हुए सीधा चलते हुए मुंशीराम को छोड़ते हुए हवासिंह को लेते हुए मांगीलाल पुत्र रामू को छोड़ते हुए डालू धाणक व मोलूराम धाणक को लेते हुए पूर्व की तरफ चलकर मंजू पूनियां के घर को शामिल करते हुए शामदीन, गफूर खां व राजेन्द्र पूनियां के नोहरे को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर सीधे मोतीपुराबास रोड़ आदर्श पब्लिक स्कूल को शामिल करते हुए फारूक हसन पुत्र गुलहसन को छोड़ते हुए मुस्ताक खां को लेते हुए नियामत ग्राम सेवक व मोहम्मद यासीन कुरैशी को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर किसन के नोहरे को शामिल कर आरा मशीन ताराचन्द व रेल्वे लाईन को छोड़कर समाध भवन को शामिल करते हुए रेल्वे लाईन, जीवणी सांसी व डाकोतो के मकान को छोड़ते हुए सीधे पूर्व की समाध भवन के चिपते गली में श्योक्त खां सिक्का के नोहरे व सदीक खां सिक्का, मुस्ताक खां सिक्का को छोड़ते हुए शेर खां सिक्का को लेते हुए सीधे उत्तर की तरफ रामस्वरूप सांसी व जयवीर नाई को छोड़ते हुए भादरसिंह मोठसरा व हिरालाल सोनी को लेते हुए महेन्द्र सोनी को छोड़कर मदन मकड़ोलिया के पूर्व के मकान तक।

#### वार्ड नं. 18

हरिराम पुत्र जालूराम सोनी चैनवाली धर्मशाला से दक्षिण की तरफ चलकर शीतला मन्दिर को शामिल कर सुभाष शर्मा नगरपालिका जीवराज पुरोहित व मदन मकड़ोलिया को छोड़ते हुए सीधे पूर्व दिशा की तरफ चलकर जयसिंह कुम्हार को लेते हुए बजरंग राठी व भगवानी देवी स्कूल को छोड़ते हुए रामकुमार शर्मा को लेते हुए पूर्णसिंह राजपूत व शाबीर खां कसाई को छोड़ते हुए उत्तर की तरफ मुड़कर मजीद खां कसाई को लेते हुए मोहनलाल सिंधी को छोड़ते हुए किसनलाल सिहाग मास्टर को शामिल कर मोहनलाल ढिलकीवाला व सुमेरसिंह राजपूत को शामिल करते हुए पप्पू खां कसाई के नोहरे व करणी माता मन्दिर को छोड़ते हुए सीधा पूर्व की तरफ चलते हुए हजारीराम सोनी को छोड़ते हुए चेताराम दौलतराम बैनीवाल के नोहरे को शामिल कर ज्ञानसिंह के नोहरे व सुरेन्द्र सोनी को छोड़ते हुए सरजिया बानो पार्षद को लेते हुए जयसिंह मोठसरा को छोड़ते हुए उत्तर की ओर मुड़कर प्रताप जाट के घर/दुकान को लेते हुए रामू पान वाला, शीशपाल/मोतीलाल धेरड़ को छोड़ते हुए राम प्रताप शर्मा नगरपालिका वाले को शामिल कर तनसुख आँवरसियर आत्माराम भार्गव के नोहरे को छोड़ते हुए नरेश पुत्र मंगतुराम शर्मा व पटेल फौजी को शामिल कर पश्चिम दिशा की ओर चलकर राजकुमार सोनी हनुमान भार्गव को छोड़ते हुए श्योदान ड्राईवर को शामिल कर मोहन पंजाबी महेश जगमालसिंह राजपूत को छोड़ते हुए मस्जिद व हाजी दाऊद खां धर्मशाला को शामिल कर शकूर कसाई को छोड़ते हुए इस्लाम कुरैशी को शामिल कर अब्दूल सतार/सदू खां को छोड़ते हुए भानीराम कुम्हार को व नाजम व्यापारी को लेते हुए औकारमल/मोदूराम धाणक व रामस्वरूप मिस्त्री को छोड़ते हुए सीधा गुलाब मालपानी रमेश कुमार को लेते हुए महेन्द्र सर्राफ व खिराज मिस्त्री को छोड़ते हुए सीधा हरिराम सोनी की दुकान तक।



## वार्ड नं. 19

मोतीपुरा बास अलियास के मकान से उत्तर की ओर चलकर किसन जाट के नोहरे को छोड़कर सीधे नियामत ग्राम सेवक को लेते हुए आदर्श पब्लिक स्कूल व मन्जू पूनियां के घर को छोड़ते हुए शामदीन, गफूर खां व राजेन्द्र पूनिया के नोहरे को लेते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर सीधे भानीराम के मकान को शामिल कर डालूराम धाणक व रामकिशन को छोड़ते हुए उत्तर की तरफ मुड़कर सीधे महेन्द्र पुत्र खमाणाराम को लेते हुए पूर्णसिंह राजपूत व मजीद व्यापारी को छोड़ते हुए शाबीर व्यापारी, मोहनलाल को लेते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर पप्पू खां कसाई, करणीमाता मन्दिर को शामिल कर सुमेरसिंह राजपूत मोहनलाल ढिलकीवाले के नोहरे को छोड़ते हुए हजारी सोनी को शामिल कर चेताराम बैनीवाल के नोहरे को छोड़ते हुए सीधे पूर्व की तरफ गंगासिंहपुरा रोड़ की ओर सुरेन्द्र सोनी जानसिंह के नोहरे को शामिल करते हुए सरजिया पार्षद को छोड़ते हुए राम कुमार जोशी व मनीराम पटवारी को लेते हुए जोगेन्द्र मोठसरा प्रताप जाट को छोड़ते हुए सीधा पूर्व की ओर चलकर दक्षिण दिशा की समस्त आबादी शामिल कर विश्वकर्मा मन्दिर छोड़ते हुए महेन्द्र सर्राफ की कॉलोनी शामिल करते हुए चेताराम की बाड़ी व पुनिया कॉलोनी को छोड़ते हुए प्रतापसिंह पहाड़ीवाल के मकान को शामिल कर राजगढ़ बाईपास से दक्षिण की तरफ चलते हुए बिम्बको वैलडिंग वर्क्सशॉप को छोड़ते हुए दुलीचन्द यादव व जय अम्बे गैस एजेन्सी को शामिल कर मोतीपुरा बास को छोड़ते हुए हाजी दाऊद खां व मुकनसिंह राजपूत के खेड़ा की समस्त आबादी को शामिल कर सीधे अलियास के घर तक।

## वार्ड नं. 20

राजू डिम्पल पुत्र खिराज मिस्त्री के घर से चलकर टेलटिया मील को लेते हुए भंवरलाल सर्राफ के मकान व डॉक्टर कैलाश की दुकानों को छोड़ते हुए शिव भगवान नोखवाल की दुकानों को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर सीधे जगदीश कन्दोई, मांगीलाल गोयल को शामिल करते हुए निरंजन दुदानी, केशव सर्राफ व सत्यनारायण फतेहपुरिया को छोड़ते हुए व हबीब खां, मजीद खां को छोड़ते हुए शौकीन खां तेली, पप्पू खां कसाई को लेते हुए सीधे जानसिंह के नोहरे व महेश पुत्र केसूराम शर्मा पुरखाराम शर्मा के मकान को छोड़ते हुए फेज खां कसाई, जीरदीन कसाई को लेते हुए हनुमान पंचारिया को छोड़ते हुए राधेश्याम पुत्र गोविन्दराम महिपाल को लेते हुए रोशनलाल महिपाल को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर कमल शर्मा पुत्र डॉ. सुरेश शर्मा को शामिल कर हर्ष भवन डॉ. टोनी, छजूराम सोनी व शंकर महाजन महिपाल को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर महेश पुत्र फूलाराम शर्मा, मदन झाईवर को शामिल करते हुए मोहन पंजाबी व श्योदान झाईवर को छोड़ते हुए सीधा मस्जिद व हाजी धर्मशाला को छोड़ते हुए जगमाल सिंह राजपूत व शकूर खां कसाई को लेते हुए ईस्लाम खां को छोड़ते हुए अब्दूल फारूक व अब्दूल सतार के मकान को शामिल कर सीधे चलकर नाजम खां व्यापारी, भानी कुम्हार को छोड़ते हुए रामस्वरूप मिस्त्री व महेन्द्र सर्राफ को शामिल करते हुए गुलाब मालपानी, हरिराम सोनी व चैनवाली धर्मशाला को छोड़ते हुए सीधा राजू डिम्पल मिस्त्री के घर तक।

## वार्ड नं. 21

भंवरलाल सर्राफ के मकान से उत्तर की ओर कैलाश डॉक्टर की दुकान को व शान्ति निकेतन स्कूल को छोड़ते हुए सीधा मोहनलाल नाई को शामिल कर महेश सर्राफ को छोड़ते हुए जुगल किशोर सिन्धी को छोड़ते हुए रामनिवास सर्राफ, मोती सर्राफ को शामिल करते हुए निर्मल लुहारीवाला पूर्व पार्षद को छोड़ते हुए नवीन लुहारीवाला व मुरारी बंसल को शामिल कर पतली गली से पश्चिम की

ओर अग्रसैन स्कूल व धर्मशाला के पीछे वाले गेट को छोड़ते हुए महावीर मास्टर को शामिल कर मदन डोभीवाले की दुकान को छोड़ते हुए एम.पी. लुहारीवाला की दुकान को शामिल कर सीधे बीकानेरी बाजार शनि मन्दिर, बालाजी मन्दिर को शामिल कर राधेश्याम मोदी व सिन्धी की दुकान को छोड़ते हुए अशोक लुहारीवाला की दुकान, हनुमान मन्दिर व भंवरलाल सोनी को लेते हुए तिलोक सोनी व रतनलाल चोरड़िया को छोड़ते हुए प्रेमरतन फतेहपुरिया व कासू खां को शामिल करते हुए बलूराम गोल्याण व दीनदयाल गोल्याण को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर भूपसिंह वकील व रफीक रेंजर को लेते हुए नाईयों की मस्जिद को छोड़ते हुए यासीन खां नाई को शामिल कर जुगल किशोर राठी को छोड़ते हुए पवन फतेहपुरिया को शामिल कर डॉ. कैलाश को छोड़ते हुए, डॉ. ओम सिन्दोलिया, सोहन नाई को लेते हुए हरिराम दुधवावाले व सनराईज स्कूल व बंशीधर नाई को छोड़ते हुए सर्राफों के नोहरे को शामिल कर भंवरलाल सर्राफ के घर तक।

#### वार्ड नं. 22

हिसार रोड़ श्याम स्कूल के सामने अमरचन्द छैलानी की दुकान को शामिल कर हरदत गोदारा की दुकान को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ चलकर मणी शंकर जी पारिक को शामिल कर राम प्रसाद हलवाई व बच्छराज वैद्य को छोड़ते हुए लाला खोखर को शामिल कर वैदो की हवेली को छोड़ते हुए नेमीचन्द खदरिया व सुभाष खदरिया को लेते हुए किशन गुप्ता (बाबू) को छोड़ते हुए ओम सोनी व हेप्पी चाचाण को लेते हुए झमनलाल खदरिया व झमनलाल शर्मा के ऑफिस को छोड़ते हुए दीपक शर्मा की दुकानों व जुगल किशोर शर्मा को शामिल कर संतलाल गोयनका व सुशील चाचाण को छोड़ते हुए सांवरमल लुहारीवाला व प्रयागचन्द खदरिया व नरसी हलवाई को शामिल कर चम्पालाल पनवाड़ी, छोटा हनुमान मन्दिर व विश्वनाथ सर्राफ की दुकान को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर चलकर महेश सर्राफ को छोड़ते हुए जुगल किशोर सोनी को लेते हुए रामनिवास सर्राफ व मोती सर्राफ को छोड़ते हुए निर्मल लुहारीवाला पूर्व पार्श्व को लेते हुए नवीन लुहारीवाला व मुरारी बंसल को छोड़ते हुए पतली गली से पश्चिम की ओर अग्रसैन स्कूल व धर्मशाला के पीछे के गेट को लेते हुए महावीर मास्टर को छोड़ते हुए मदन डोभीवाला की दुकान को लेते हुए एमपी लुहारीवाला की दुकान से सीधे बीकानेरी बाजार शनिजी मन्दिर व बालाजी मन्दिर को छोड़ते हुए राधेश्याम मोदी की दुकान को व सिन्धी की दुकान को लेते हुए अशोक लुहारीवाला, हनुमान मन्दिर व भंवरलाल सोनी को छोड़ते हुए तिलोक चन्द सोनी व रतनलाल चोरड़िया को लेते हुए प्रेमरतन फतेहपुरिया व कासू खां को छोड़ते हुए बलूराम गोल्याण को लेते हुए रतन गोल्याण को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुड़कर जाकीर खोखर व मिलन गारमेन्ट को लेते हुए रेलूमल कटला व एचकेएसबी बैंक व बजरंग सोनी, ओम डोभीवाला को छोड़ते हुए कामधेनु साड़ी संसार को शामिल करते हुए सीधा अनिल/जीवण गोयल की दुकान को लेते हुए जोधराज आटा चक्की को छोड़ते हुए पूर्व की ओर मुड़कर सीधे मूर्ति चौक से रामसिंह सांखला व महिला बाल कल्याण केन्द्र को छोड़ते हुए केसुराम हलवाई व राजकीय महाविद्यालय को शामिल कर बापूवालों की धर्मशाला व कृष्णा टाकिज को छोड़ते हुए अमरचन्द छैलानी तक।

#### वार्ड नं. 23

मैन रोड़ मूर्ति चौक सुविको इलैक्ट्रॉनिक्स व महिला बाल कल्याण केन्द्र को शामिल कर बंशीधर नाई को छोड़ते हुए सीधा उत्तर की तरफ चलते हुए एसबीआई बैंक को छोड़ते हुए नोरंग खाती बाड़ा व राजू नाई के मकान को शामिल करते हुए चम्पालाल खाती की दुकान व गणेश शर्मा (नोटेरी पी.ए.) को छोड़ते हुए झमनलाल शर्मा की मील को लेते हुए दशरथ शर्मा को छोड़ते हुए

सीताराम शर्मा व भीखाराम शर्मा को लेते हुए बनवारीलाल ऐचरा व मनोज धीरवासिया को छोड़ते हुए सुरेश शर्मा को शामिल कर हुक्कमाराम स्वामी दलीप ठेकेदार को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर योगेश शर्मा को लेते हुए राजकुमार सारडीवाल को छोड़ते हुए सीधा ग्रामीण कन्या महाविद्यालय व किशोरी मितल को छोड़ते हुए सुरेश चौधरी प्रिंसीपल को लेते हुए सीधा दक्षिण की तरफ मुड़कर सुनील चौधरी को छोड़कर यूंस डॉक़र को लेते हुए सीधे महमूद डॉक्टर व कृष्णा टाकीज सिनेमा को छोड़कर राजकिशन टेलटिया व खदरियों की दुकानों को शामिल करते हुए पश्चिम की तरफ मैन रोड पर चढ़कर चाचाणों की मिल व राजकीय महाविद्यालय को छोड़ते हुए बापूवालों की धर्मशाला को लेते हुए खुबराम की मूर्ति को छोड़ते हुए महिला बाल कल्याण केन्द्र को शामिल कर सुविको इलैक्ट्रॉनिक्स तक।

#### वार्ड नं. 24

दलीप ठेकेदार के मकान को शामिल कर सुरेश शर्मा के घर को छोड़कर सीधे पूर्व की तरफ चलते हुए जीतू खदरिया को छोड़ते हुए राजकुमार सारडीवाल के नोहरें को लेते हुए सुरेश प्रिंसीपल को छोड़ते हुए ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को लेते हुए काशीराम मास्टर व राजेन्द्र खदरिया को छोड़ते हुए छबीलाराम एडवोकेट व यसवन्तसिंह डूडी पूर्व प्रधान को लेते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा बास पीयूष गुप्ता को छोड़ते हुए ग्रामीण कन्या महाविद्यालय की पीछे की दिवार को शामिल करते हुए नेतराम महिया व रामकिशन भूकर को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर सुदर्शन पटवारी व भागीरथ भूकर को छोड़ते हुए नरेन्द्र बुडानिया चुनाराम मास्टर को शामिल कर उत्तर की तरफ मुड़कर राजपाल धेतरवाल व नागरमल कुम्हार को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर मुड़कर रामजीलाल गुर्जर व आर.पी. स्वामी के घर को शामिल कर महेन्द्र स्वामी व भवंरा स्वामी को छोड़ते हुए फूलाराम भूकर को शामिल कर दक्षिण की तरफ मुड़कर भंवरलाल बाल्मिकी व कालीमात मन्दिर को छोड़ते हुए मेजर का मकान व संतलाल वकील को शामिल करते हुए संजय गिदड़ा के घर को छोड़ते हुए दयानन्द डाबडीवाला वेदप्रकाश मास्टर व बलदेव मोदी के घर को शामिल कर पश्चिम की ओर मुड़कर लालाराम खदिया के नोहरे को व देसराज पंवार को छोड़ते हुए हरिराम जमादार को शामिल कर दक्षिण की तरफ मुड़कर देडूराम व नागरमल सैनी के मकान को छोड़कर बड़वावालों के नोहरे को शामिल कर जसवंत वाल्मिकी को छोड़कर छोटू खाती को शामिल कर सीधे दक्षिण की तरफ चलकर सत्यनारायण शर्मा को छोड़कर चम्पालाल जांगिड़ को लेते हुए सीधे दलीप ठेकेदार तक।

#### वार्ड नं. 25

देवतराम एसडीओ के घर से मण्डी रोड चलते हुए माननीय एसीजेएम क्वार्टर को छोड़ते हुए नेहरा नर्सिंग होम, अब्दुला ठेकेदार लिच्छीराम गांधीवाला को लेते हुए बाल्मिकी चौक से उत्तर की तरफ मुड़कर कुमावत स्टोन कम्पनी को छोड़ते हुए मांगीलाल मोदी की दुकान लेते हुए सीधा बिहारीपुरा बास की ओर मुस्ताक खां तेली की दुकान को छोड़ते हुए रामनिवास, रामधारी चाचाण के नोहरा (पुरानी गौशाला) को शामिल करते हुए हाजी यासीन खां व भगवानी देवी पत्नी राजेराम के घर को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ चाचाणों का नोहरा शामिल कर हरभज पुत्र नीकूराम को छोड़ते हुए व विश्वनाथ शर्मा होटल वाले को छोड़ते हुए नन्दलाल, भूपसिंह ठेकेदार को लेते हुए जगदीश अठवाल को छोड़ते हुए श्रीराम लदड़ व विशाल कुमार माली को लेते हुए उत्तर की तरफ मुड़कर भजनदास की कुटिया को छोड़ते हुए भंवरलाल सैनी को लेते हुए राजू सैनी को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर सीधे

सुभाष मिस्त्री को लेते हुए विनोद वाल्मिकी चान्दबाई बाल्मिकी व लाला खदरिया के नोहरे व हरिराम जमादार को छोड़ते हुए रामसिंह बिजारणियां व ठण्डूराम बाल्मिकी को शामिल कर पूर्व की तरफ पतली गली से दक्षिण की ओर मुड़कर नागरमल सैनी को शामिल कर दड़बेवालों के नोहरे को छोड़ते हुए जसवन्त बाल्मिकी को लेते हुए छोटू खाती व शितला माता मन्दिर को छोड़ते हुए हरि प्रकाश शर्मा को शामिल कर दलीप ठेकेदार व हुकमाराम को छोड़ते हुए सत्य नारायण शर्मा को शामिल कर पश्चिम की ओर मुड़कर नन्दलाल सैनी को छोड़ते हुए सुरेश गांधीवाले को शामिल करते हुए सीधा कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय को छोड़ते हुए अशोक सैनी, लीलाधर एडवोकेट को शामिल कर देवतराम एसडीओ तक।

#### वार्ड नं. 26

कृष्णा टाकिज सिनेमा हॉल को शामिल कर राजकिशन टेलटिया की दुकान को छोड़ते हुए उत्तर की तरफ सीधे महमूद भाटी डाक्टर को लेते हुए कमलेश कपिल व डॉ. यूनस, शारदा सांखला को छोड़ते हुए किशोरी मितल को लेते हुए सुरेश चौधरी प्रिंसीपल व ग्रामीण कन्या महाविद्यालय व दौलतराम वकील को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ रामअवतार, काशीराम मास्टर व राजेन्द्र खदरिया को लेते हुए छबीलाराम वकील को छोड़ते हुए उत्तर की तरफ चलकर विकास चौधरी पार्षद को लेते हुए हनुमान मन्दिर व इन्द्र शर्मा को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर अकबर खां को लेते हुए मांगू खां, मुमताज खां को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर डॉ. सुरेश चौधरी पूर्व विधायक को छोड़ते हुए टॉवर व विजयसिंह पंचायत समिति कर्मचारी को शामिल कर सुभाष जोगीवाला के नोहरे को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर अर्जुनलाल मोदी को लेते हुए नरेन्द्र लीडर व रामेश्वरलाल को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ गौशाला को छोड़ते हुए विश्वनाथ मंगालीवाला की बाडी को शामिल करते हुए रणसिंह मास्टर व भारती इम्पोरियम को छोड़ते हुए महावीर निनाण वाले को शामिल कर सीधे हिसार मैन रोड पर पश्चिम की तरफ मुड़ते हुए शराब ठेका व रामसिंह मिल को छोड़ते हुए रामविलास अग्रवाल को शामिल करते हुए सीधे श्याम पाठाशाला स्कूल को लेते हुए चाचाण मील को छोड़ते हुए कृष्णा टाकिज सिनेमा तक।

#### वार्ड नं. 27

अम्बेडकर चौक से दक्षिण की तरफ चलकर प्रकाश जैन एक्सिस बैंक को शामिल कर तमन्ना आर्ट्स को छोड़ते हुए सीधे चलकर डॉ. फूल मोहम्मद व मोची धर्मशाला को शामिल करते हुए गोविन्द चायल व राजकुमार पुत्र रिछपाल मोची को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ चलते हुए ख्यालीराम मोची को लेते हुए सांवरमल व किशनलाल मोची को छोड़ते हुए बिरबल मोची व राजू मोची को लेते हुए डालूराम मोची व कान्हाराम मोची व डूम सागर को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर रामगोपाल मोची व चेताराम जाट को शामिल कर दक्षिण की तरफ मुड़कर मोहन टेलर गोपी आटा चक्की को छोड़ते हुए शनि जी मन्दिर व गोविन्द सर्राफ को लेते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर जसवन्त नेहरा व मनीराम सोनी को छोड़ते हुए बालचन्द्र मंगालीवाला, हरि किशन शर्मा को लेते हुए सीधे आगे चलकर हनुमान जी की हवेली छोड़ते हुए मस्जिद को लेते हुए नागर लखारा को छोड़ते हुए रामावतार गोल्याण, राजकिशन सर्राफ को शामिल कर विश्वानाथ सर्राफ की दुकान व अलायला ज्वैलर्स को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर छोटा हनुमान जी का मन्दिर, चम्पालाल पनवाड़ी को शामिल कर अंजनी मितल व नरसी हलवाई को छोड़ते हुए देवीलाल सोनी, किशन गोल्याण की दुकान को लेते हुए प्रयागचन्द्र खदरिया व सांवरमल लुहारीवाला के मकान को छोड़ते हुए सुशील चाचाण व संतलाल

गोयनका को लेते हुए जुगल किशोर शर्मा व दीपक शर्मा की दुकानों को छोड़ते हुए झमनलाल शर्मा के ऑफिस व झमनलाल खदरिया को लेते हुए ओम सोनी व हेप्पी चाचाण को छोड़ते हुए किशन गुप्ता (बाबू) को लेते हुए नेमीचन्द खदरिया व सुभाष खदरिया को छोड़ते हुए मोहन खदरिया व वैदो की हवेली को शामिल कर लाला खोखर, स्व. मणीशंकर जी पारिक को छोड़ते हुए बच्छराज वैद्य, नेमीचन्द व रामप्रसाद हलवाई को शामिल कर उत्तर की तरफ सीधे हिसार मैन रोड़ से पूर्व की तरफ मुड़ते ही अमरचन्द छैलानी की दुकानों, शिवजी मन्दिर व श्याम स्कूल को छोड़ते हुए हरदत गोदारा की दुकान को लेते हुए सीधा अम्बेडकर चौक की मूर्ति को छोड़ते हुए बाबूलाल नाहटा से प्रकाश जैन के घर तक।

#### वार्ड नं. 28

मैन रोड़ हिसार-नोहर अंग्रेजी शराब ठेका से उत्तर की ओर गौशाला रोड़ पर रामविलास अग्रवाल को छोड़ते रणसिंह मास्टर व भारती एम्पोरियम को लेते हुए महावीर निनाण वाले को छोड़ते हुए सीधे गौशाला को शामिल कर विश्वानाथ मंगालीवाला की बाड़ी व अर्जुनलाल मोदी को छोड़ते हुए नरेन्द्र लीडर व रामेश्वरलाल को लेते हुए विजयसिंह राजपूत व टावर को छोड़ते हुए सुभाष जोगीवाला के नोहरा व डॉ. सुरेश चौधरी पूर्व विधायक को शामिल कर सुभाष जोगीवाला के मकान व कान्हा स्वामी को छोड़ते हुए सीधा उत्तर की तरफ मुमताज खां को लेते हुए मांगू खां को छोड़ते हुए अमरसिंह जाट व यादवों का नोहरा लेते हुए मुस्ताक खां के नोहरे को छोड़ते हुए बरकत खां का नोहरा, जयदेव बिश्नोई मास्टर व अशोक व्यास को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर गुरुदयाल व पूनमचन्द मास्टर को लेते हुए महावीर कैप्टन को छोड़ते हुए सीधा दक्षिण की तरफ चलकर बाबूलाल मोदी व जरिना को लेते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर सलीम काजी को छोड़ते हुए हरिसिंह बैनीवाल को लेते हुए शमशेर खोखर को छोड़ते हुए रामकुमार कुम्हार को लेते हुए सुलतान जाखल को छोड़ते हुए सीधा महेन्द्र ग्राम सेवक को लेते हुए बजरंग शर्मा पवन शर्मा व बैंक मैनेजर के नोहरे को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ सीधे चलते हुए गोपाल कबाड़ी को लेते हुए किशन सिन्धी को छोड़ते हुए विकास सीमेन्ट, शॉपिंग मॉल व जीवन ज्योति हॉस्पिटल को शामिल कर पूर्व की तरफ मुड़कर हनुमान फर्नीचर, भगतसिंह मसाला पिसाई केन्द्र को छोड़ते हुए मुथुट फाईनेनस बैंक ऑफ बड़ौदा व एसबीआई बैंक को शामिल कर मैन रोड़ से पश्चिम की ओर चलते हुए दाऊद कटला कृष्णा इलैक्ट्रोनिक्स को छोड़ते हुए आईसीआईसीआई बैंक को शामिल कर सीधे अम्बेडकर चौक की तरफ आते हुए नन्दलाल/गंगाधर टिम्बर मर्चेन्ट, बालाजी हॉटल, शिव भगवान नोखवाल को शामिल करते हुए मारवाड़ी हॉटल व मोहन स्वामी को छोड़ते हुए मदन जोगीवाला को शामिल कर अम्बेडकर चौक को छोड़ते हुए सीधा शराब ठेका तक।

#### वार्ड नं. 29

डॉ. कैलाश की दुकान/मकान से चलकर भंवरलाल सर्राफ के मकान को छोड़कर शान्ति निकेतन स्कूल को लेते हुए उत्तर की तरफ सीधे चलकर मोहन नाई को छोड़ते हुए महेश सर्राफ को लेते हुए अलायला ज्वैल्स को छोड़ते हुए विश्वानाथ सर्राफ की दुकान को शामिल कर राजकिशन सर्राफ व रामावतार गोल्याण को छोड़ते हुए नागर लखारा, हनुमानजी की हवेली को शामिल कर जामा मस्जिद को छोड़ते हुए मनीराम सोनी जसवन्त नेहरा को शामिल कर जेपी प्लास्टिक फैक्ट्री व मांगी मंगालीवाला की दुकान को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ गोपाल कृष्ण व किरसन इन्दोरिया को शामिल कर गोपी आटा चक्की व चम्पालाल राजगढ़िया को छोड़ते हुए हनुमान मन्दिर को लेते हुए कालूराम

छानीवाले की हवेली को छोड़ते हुए ऋषी गिदड़ा लेते हुए सुभाष शर्मा, नन्दी चौक जेपी मंगालीवाला को छोड़ते हुए सीधे पूनमचन्द शर्मा, धर्मराज शास्त्री को शामिल कर प्रहलाद कौशिक, जानसिंह चौधरी की हवेली को छोड़ते हुए सुन्दर भार्गव, नागरमल भार्गव को शामिल कर मंम्मू खां व्यापारी को छोड़ते हुए भालसिंह कस्वां वकील, केसव सर्राफ को शामिल कर चम्पालाल टेलटिया, जगदीश कन्दोई को छोड़ते हुए निरंजन दुदानी, सुरजमल गोल्याण को शामिल कर बनवारी सोनी को छोड़ते हुए सीधा डॉ. कैलाश तक।

#### वार्ड नं. 30

सत्य नारायण फतेहपुरिया व सांवरमल चौधरी के घर को शामिल करते हुए उत्तर की ओर विनोद शर्मा, हनुमान टेलटिया को छोड़ते हुए सीधा जानसिंह चौधरी की कोठी को शामिल कर नागरमल भार्गव व सुन्दरलाल भार्गव एवं सुरेन्द्र शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा के घर को छोड़ते हुए सीधा जेपी मंगालीवाला व नन्दी चौक को शामिल कर संजय शर्मा एडवोकेट, महेश शर्मा को लेते हुए सुभाष शर्मा व पूनमचन्द गिदड़ा को शामिल कर हनुमान मन्दिर व किरसन इन्दोरिया व शनि मन्दिर को छोड़ते हुए प्रेमसुख महिपाल, चम्पालाल राजगढ़िया, गोपीचन्द वर्मा पत्रकार आटा चक्की को शामिल कर सीधे चेताराम जाट, रामगोपाल मोची को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर मोहनजी टेलर के प्लाट व डूम सागर को शामिल करते हुए सत्यनारायण चितारा व कन्हेयालाल मोची को छोड़ते हुए महबूब काजी को शामिल कर जमालूदीन मिस्त्री सरीफ मोहम्मद खटीक को छोड़ते हुए सकुर काजी को लेते हुए व खुशी मोहम्मद व रजाक खां को छोड़ते हुए हासम अली खटीक व युसफ अली को शामिल कर पूर्व की तरफ रोशन लुहार व ज्यान मोहम्मद लुहार को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर सीधे पप्पु धोबी को शामिल करते हुए रामप्रताप नाई को छोड़ते हुए गुलाब नबी व मोबाईल टावर को शामिल कर राजेन्द्र जोशी को छोड़ते हुए सीधे चलकर मदरसा को शामिल कर बाबूलाल महिपाल व गोविन्द महिपाल को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर मांगीलाल महिपाल के नोहरे को शामिल कर सीताराम महिपाल व जीरदीन व्यापारी को छोड़ते हुए रोशन महिपाल व हनुमान प्रसाद पंचारिया को लेते हुए फैज मोहम्मद सतार खां को छोड़ते हुए किशन लाल शर्मा, केशुराम शर्मा के नोहरा व जानसिंह की कोठी को शामिल कर सीधे पप्पु खां, यासीन खां व्यापारी को छोड़ते हुए युनस खां हबीब खां को लेते हुए राकेश अग्रवाल व मांगीलाल ठेकेदार को छोड़ते हुए सीधा सत्यनारायण फतेहपुरिया के घर तक।

#### वार्ड नं. 31

जयसिंह मोठसरा के घर को शामिल कर उतर की तरफ प्रताप सिंह जाट मनीराम बिजारणीयां को छोड़ते हुए सीधा चलते हुए रामू पानवाला, मोतीलाल शर्मा को शामिल कर रामप्रताप नगरपालिका को छोड़ते हुए रामअवतार भार्गव, तनसुख ओवरसियर व राजु सोनी को शामिल कर बनवारी जाट, पटेल फौजी को छोड़ते हुए सीधे पश्चिम की तरफ मुड़कर आत्माराम भार्गव, मोहन पंजाबी विधा सागर महिपाल को शामिल कर कमल शर्मा, हर्ष शर्मा सुभाष सोनी को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ कुटिया रोड की ओर मुड़कर सीधे पप्पु सोनी विश्वमोहन मास्टर व नत्थुराम शर्मा को शामिल कर भंवर लाल शर्मा, रमजान की बाडी को छोड़ते हुए कुलदीप सोनी को शामिल कर बाडी व मंगतूराम शर्मा को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर भपु खां व्यापारी को शामिल कर पुर्ण सिंह राजपुत व द्वारका प्रसाद को छोड़ते हुए विजेन्द्र छिम्पा पटवारी व मंगलचन्द शर्मा को शामिल कर सीधे ताराचन्द शर्मा पुजारी को शामिल कर होशियारी लाल शर्मा को छोड़ते हुए सुरेन्द्र शर्मा, सुभाष कन्डकटर को छोड़ते

हुए चन्द्रशेखर मदन हलवाई को शामिल कर पश्चिम की तरफ मुड़कर मनीराम पटवारी को छोड़ते हुए सीधा आनन्द स्वामी को लेते हुए रामकुमार जोशी व सुरेश सोनी के नोहरे को छोड़ते हुए जयसिंह मोठसरा तक।

वार्ड नं. 32

सुभाष कन्डेक्टर को लेते हुए पूर्व की ओर चलते हुए मनीराम पटवारी को छोड़ते हुए विश्वकर्मा मन्दिर को शामिल कर इंगरराम घोड़ेला को छोड़ते हुए दौलतराम, हेतराम की बाड़ी को शामिल करते हुए रामसिंह घोटिया व महेन्द्र सराफ की बाड़ी को छोड़ते हुए पूनियां कॉलोनी को शामिल कर सीधे राजगढ़ रोड़ से उत्तर की ओर मुड़कर बिम्को वैल्लिंग वर्क्स शॉप को छोड़ते हुए अब्बास फार्म हाऊस व शनि देव मन्दिर को शामिल करते हुए हाजी दाऊद खां के नोहरे को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर चलकर कूलदे दादी मन्दिर व प्रबलजी की कूटिया को छोड़ते हुए केंसर हॉस्पिटल व महिपाल अतिथि सदन को शामिल करते हुए श्रीमती रहिशा बानो चैयरमैन नगरपालिका भादरा व रफीक डीस वाले को छोड़ते हुए खुशी मोहम्मद व नवाब कबाड़ी को लेते हुए सत्तार कुरेशी को छोड़ते हुए बलदेव शर्मा को लेते हुए रूघवीर सोनी व सत्यवीर वकील को छोड़ते हुए मंगतराम शर्मा के मकान को शामिल कर दक्षिण की ओर मुड़कर रामजस की बाड़ी व महेन्द्र जाट के प्लाट को छोड़ते हुए पूर्णसिंह राजपूत को शामिल कर पप्पू खां व्यापारी व विजेन्द्र छीम्पा पटवारी को छोड़ते हुए द्वारका प्रसाद शर्मा व होशियारीलाल को लेते हुए मंगलचन्द शर्मा, ताराचन्द पूजारी को छोड़ते हुए कैलाश शर्मा को शामिल कर चन्द्रशेखर को छोड़ते हुए सुभाष कन्डेक्टर के घर तक।

वार्ड नं. 33

अम्बेडकर चौक को शामिल कर सुभाष मेडिकल स्टोर को लेते हुए हिसार रोड़ पूर्व की ओर चलते हुए नन्दलाल/गंगाधर टिम्बर मर्चेन्ट को छोड़ते हुए महावीर काठ बाड़ा को शामिल करते हुए एसबीआई बैंक व विकास फर्नीचर हाऊस को छोड़कर कब्रिस्तान वाली गली में दक्षिण की ओर मुड़कर कब्रिस्तान को छोड़ते हुए हाजी दाऊद खां कटला को शामिल कर सीधे चलते हुए लालचन्द सोनी को छोड़ते हुए रणवीर जाट के प्लाट को लेते हुए कपूर चन्द वकील को छोड़ते हुए गुलाम मोहम्मद को शामिल कर मोहरसिंह भड़िया व कालूराम गोस्वामी के मकान को छोड़कर पूर्व की तरफ मुड़कर अब्दूल मजीद व एलबीएस स्कूल को शामिल कर सीधे चलकर मोहरसिंह भड़िया व औम चौहान नगरपालिका कर्मचारी व रिसाल सिंह पुनिया के नोहरे को छोड़कर दक्षिण की तरफ मुड़कर अम्बिका ज्ञान स्थली को शामिल कर रामचन्द्र खीचड़ व रामजस की बाड़ी को छोड़कर रवि दाधिच व रूपेश मीणा को शामिल कर पश्चिम की तरफ मुड़कर अब्दूल क्यूम भाटी को छोड़ते हुए मुमताज, जाकीर खां व मुन्शी खां को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर कुतुबदीन, राजपाल नाई को शामिल कर पप्पू धोबी के बाड़े व लीलू खां को छोड़ते हुए खुशी मोहम्मद व धर्मराम महिपाल को लेते हुए हरि सोनी को छोड़ते हुए चम्पालाल महिपाल को शामिल कर सुभाष सोनी, छज्जूराम सोनी व डॉ. सुरेश शर्मा को छोड़ते हुए हर्ष पुत्र टोनी शर्मा को शामिल कर पश्चिम की ओर गोविन्द महिपाल व रोशन महिपाल के नोहरे को छोड़ते हुए बाबूलाल महिपाल को शामिल कर उत्तर की ओर चलते हुए राजेन्द्र कुमार जोशी को शामिल कर टावर मदरसा को छोड़ते हुए यूसफ अली को छोड़कर बरकत खां व रोशन लुहार को शामिल कर हसनदीन व मुस्ताक को छोड़ते हुए खुशी मोहम्मद खटीक व श्योकत खां को शामिल कर डूम सागर को छोड़ते हुए कन्हैयालाल मोची व सत्यनारायण चितारा को शामिल करते हुए उत्तर की तरफ मुड़कर राजू मोची व बिरबल मोची को छोड़ते हुए डालूराम मोची को

शामिल कर सीधे चलते हुए सांवरमल मोची व किशनलाल मोची को लेते हुए ख्यालीराम मोची को छोड़ते हुए राजकुमार पुत्र रिछपाल, गोविन्द चायल को शामिल कर मोची धर्मशाला व डॉ. फूल मोहम्मद व मैरीज पैलेस को छोड़ते हुए उत्तर की तरफ मुड़कर तमन्ना आर्ट्स को शामिल कर एक्सिस बैंक प्रकाश जैन को छोड़ते हुए सीधा सुभाष मेडिकल स्टोर से अम्बेडकर चौक तक।

वार्ड नं. 34

कल्याण भूमि को छोड़कर गणेशपुरा बास में भगताराम स्वामी के नोहरे को शामिल करते हुए सीताराम व मनोहर स्वामी को छोड़ते हुए वीरसिंह स्वामी को शामिल करते हुए मानसिंह स्वामी को छोड़ते हुए हरिसिंह कारेला व भालसिंह कारेला को शामिल करते हुए पश्चिम की तरफ सीधे प्रताप स्वामी लुणाराम कारेला को छोड़ते हुए सीधे चलकर मघाराम स्वामी को शामिल कर पवन सिहाग वकील को छोड़ते हुए बलवीर सिहाग को लेते हुए गौशाला की भूमि व राकेश बैनीवाल को छोड़ते हुए सीधे एलबीएस रोड़ पर चलते हुए भगवानाराम ढील को लेते हुए अमरसिंह जास्ट को छोड़ते हुए राजकुमार स्वामी को लेते हुए वीरसिंह कारेला को छोड़ते हुए सुभाष चन्द्र कारेला शकुंतला सदन को शामिल कर भारत सैनिक स्कूल को छोड़ते हुए रिसालसिंह पूनियां के नोहरे को शामिल कर दक्षिण की तरफ मुड़कर मोहरसिंह भड़िया की दुकानों को व अम्बिका ज्ञान स्थली व पवन शर्मा के मकान को छोड़ते हुए रामचन्द्र खीचड़ व रामजस की बाड़ी को शामिल करते हुए रवि दाधिच व रूपेश मीणा को छोड़कर पश्चिम की ओर मुड़कर अब्दूल क्यूम भाटी को शामिल कर मुमताज व जाकीर खां व मुंशी खां को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर कुतुबदीन व राजपाल नाई को छोड़ते हुए पप्पू धोबी के बाड़े को व लीलू खां को शामिल करते हुए खुशी मोहम्मद को छोड़ते हुए धर्माराम महिपाल व मनोज गेदर को शामिल कर सीता भवन (चम्पालाल महिपाल) को छोड़ते हुए हरि सुनार को लेते हुए हर्ष शर्मा पुत्र टोनी शर्मा छजूराम सोनी को छोड़ते हुए सुभाष सोनी को शामिल कर पूर्व की ओर कुटिया रोड़ चलकर विश्व मोहन मास्टर को छोड़ते हुए प्रयागचन्द्र शर्मा को लेते हुए नीरज सोनी को छोड़ते हुए रतनसिंह बैनीवाल को लेते हुए कूलदीप सोनी को छोड़ते हुए सतवीर वकील को लेते हुए बलदेव शर्मा को छोड़ते हुए श्रीमती रहिशा बानो अध्यक्ष नगरपालिका भादरा व प्रबलजी की कुटिया को शामिल कर कैंसर हॉस्पिटल व महिपाल अतिथि सदन को छोड़ते हुए हाजी दाऊद खां के प्लाट को शामिल करते हुए श्री शनी देव मन्दिर व अब्बास फार्म हाऊस को छोड़कर राजगढ़ बाईपास रोड़ से उत्तर की ओर गणेशपुरा बास की तरफ एसएमबी टाईल्स व बिल्डिंग मैटेरियल को छोड़ते हुए व रिद्धी-सिद्धी मार्बल व ग्रेनाईट को लेते हुए कल्याण भूमि को छोड़कर भगताराम स्वामी के नोहरे तक।

वार्ड नं. 35

कब्रिस्तान को शामिल कर हाजी दाऊद खां के कटला को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ चलकर लालचन्द सोनी अंजनी सोनी को शामिल कर गुलाम मोहम्मद व अब्दूल मजीद को छोड़ते हुए भूपेन्द्र सिहाग कपूर चन्द वकील, मोहरसिंह भड़िया को शामिल कर पूर्व की तरफ मुड़कर एलबीएस स्कूल को छोड़ते हुए कालूराम गोस्वामी व भारत सैनिक स्कूल को शामिल करते हुए सीधे रामचन्द्र फगेड़िया, गोपीराम बंसल व रामनिवास बंसल को छोड़ते हुए वीरसिंह कारेला को शामिल कर अमृतलाल मेहरड़ा को छोड़ते हुए अमरसिंह जास्ट को लेते हुए भगवानाराम ढील को छोड़ते हुए राकेश बैनीवाल को शामिल कर बलवीर सिहाग व गौशाला की भूमि को छोड़ते हुए बाबा रामदेव मन्दिर को शामिल का सुडा भवन विनोद माली व ब्रदी माली की दुकानों को छोड़ते हुए किशनलाल सोनी कब्रिस्तान को शामिल कर पश्चिम की तरफ मुड़कर जोनडियर ट्रैक्टर एजेन्सी, मील सर्विस सैन्टर व गौशाला की



भूमि को छोड़ते हुए हिसार मैन रोड से कब्रीस्तान की दुकानों को शामिल कर ऑटो मार्केट व बस स्टैण्ड को छोड़ते हुए सीधे विकास फर्नीचर व एसबीआई बैंक दाउद कटला को छोड़ते हुए कब्रीस्तान के गैट तक।

#### वार्ड नं. 36

विश्वकर्मा चौक के पास वीडिएस धर्मकांटा को शामिल कर राजगढ़ बाईपास रोड से राजगढ़ की तरफ चलते हुए सतवीर न्योल व प्रशान्त बिल्डिंग मैटेरियल को छोड़कर सीधा प्रतीक आयरन स्टोर व सती दादी के मन्दिर को शामिल करते हुए व पूर्व की आबादी को छोड़ते हुए पश्चिम की आबादी को शामिल कर सीधे चलकर कल्याण भूमि को छोड़ते हुए कल्याण भूमि के सामने पतली गली से गणेशपुरा बास की ओर चलते हुए सीताराम स्वामी, मनोहरलाल स्वामी को शामिल कर वीरसिंह स्वामी को छोड़ते हुए मानसिंह स्वामी को लेते हुए हरिसिंह कारेला व भालसिंह कारेला को शामिल कर सीधे चलकर मघाराम स्वामी को छोड़ते हुए पवन सिहाग वकील को लेते हुए बलवीर सिहाग व राकेश बैनीवाल को छोड़ते हुए गौशाला की भूमि को शामिल कर उत्तर की तरफ मुड़ते हुए सीधे कमलसिंह कस्वां व राजू माली को लेते हुए रामकिशन कस्वां व मोहन कुलडिया को छोड़ते हुए सीधे कब्रीस्तान की पीछे की दिवार साईड छोड़ते हुए रणजीत पूर्व पार्श्व को शामिल कर बाबा रामदेव मन्दिर को छोड़ते हुए सूडा भवन को शामिल कर विनोद माली व बद्री माली की दुकानों को शामिल कर किशनलाल सोनी को छोड़कर पश्चिम की तरफ मैन हिसार रोड की ओर चलकर मील सर्विस स्टेशन व जोनडियर ट्रैक्टर एजेन्सी को शामिल कर कब्रीस्तान व गौशाला की भूमि को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ मैन हिसार रोड चलकर ओम म्यूजिक सैन्टर को छोड़कर स्वामी म्यूजिक सैन्टर को लेते हुए सीधा वीडिएस पेट्रोल पम्प व प्रहलाद न्योल की दुकान को छोड़ते हुए वीडिएस मैरीज पैलेस बैनीवाल हॉस्पिटल को शामिल कर सीधे वीडिएस धर्मकांटा तक।

#### वार्ड नं. 37

एसबीआई बैंक के पास भगतसिंह मसाला केन्द्र से पूर्व की तरफ मैन रोड से चलते हुए कब्रीस्तान की दुकानों को छोड़ते हुए सीधे बस स्टैण्ड ऑटो मार्केट को लेते हुए सीधा वीडिएस व बैनीवाल हॉस्पिटल को छोड़ते हुए वीडिएस पेट्रोल पम्प को लेते हुए सीधा विश्वकर्मा चौक को छोड़ते हुए उत्तर की ओर मुड़कर पूजा वैलडिंग मैटेरियल व साईं टायल्स को लेते हुए सीधा विवेकानन्द कॉलेज को छोड़ते हुए भगवाती मार्वल को शामिल करते हुए सीधा हिसार नोहर बाईपास रोड से नोहर की तरफ चलते हुए शिवम बिल्डिंग मैटेरियल को शामिल कर विश्वकर्मा वैलडिंग वर्कशॉप को छोड़ते हुए खोखर कॉलोनी व हिरो हॉण्डा शॉरूम एवं वन विभाग चौ. चरणसिंह वन चेतना केन्द्र को शामिल करते हुए सीधा नवाब बिल्डिंग व अजीत का मकान एवं गोदारा कॉलोनी को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर वन विभाग को शामिल कर दलीप मोठसरा, रमाकान्त शर्मा का मकान, बालाजी विद्यापिठ को छोड़ते हुए ओम मेघवाल व रघुवीर गोदारा का नोहरा लेते हुए बलवन्त सहू, कृष्ण सहू को छोड़ते हुए कृष्ण सहू के नोहरे को लेते हुए सतवीर गोदारा के मकान को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ शर्मा जिम सैन्टर व मंगूराम मास्टर को शामिल करते हुए ओम शर्मा व भरत बेरवाल, अशोक व्यास को छोड़ते हुए इन्द्र सोनी व सांवरमल कुम्हार को लेते हुए बाबूलाल मोदी व जरीना को छोड़ते हुए सलीम काजी को लेते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर शमशेर खोखर को लेते हुए हरिसिंह बैनीवाल को छोड़ते हुए सुलतान जाखड़ को लेते हुए रामकुमार कुम्हार को छोड़ते हुए महेन्द्र सिंह ग्राम सेवक को छोड़ते हुए बैंक मैनेजर के नोहरे व बजरंग शर्मा, पवन शर्मा के मकान को शामिल कर दक्षिण की

तरफ मुड़कड़ सीधे चलकर गोपाल कबाड़ी को छोड़ते हुए किशन सिन्धी को लेते हुए विकास सिमेन्ट, जीवन ज्योति हॉस्पिटल को छोड़ते हुए नवाब मारवाड़ी गौशाला के प्लाट को शामिल कर बड़ौदा बैंक व एसबीआई बैंक को छोड़ते हुए सीधा हनुमान फर्नीचर को लेकर भगतसिंह मसाला केन्द्र तक।

वार्ड नं. 38

पारिक टी स्टाल ओमजी शर्मा के मकान के सामने गोदारा कॉलोनी को लेते हुए अजय होटल को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर वन विभाग को छोड़कर गोदारा कॉलोनी दलीप मोठसरा, बालाजी विद्यापीठ को लेते हुए ओमजी मेघवाल व रघुवीर गोदारा का नोहरा छोड़ते हुए बलवन्त सहू, कृष्ण सहू को लेते हुए कृष्ण सहू के नोहरे व शर्मा जिम सैन्टर को छोड़ते हुए सतवीर गोदारा व ओम शर्मा के घर को लेते हुए मंगतराम मास्टर व इन्द्र सोनी को छोड़ते हुए भरत मेघवाल व अशोक व्यास को लेते हुए सांवरमल कुम्हार व पूनम चन्द धुवां मास्टर व गुरदयाल कुम्हार को छोड़ते हुए जयदेव बिश्नाई मास्टर व बरकत खां के नोहरे को लेते हुए मिर्ची लुहार व अमरसिंह जाट को छोड़ते हुए मांगू खां को लेते हुए मुमताज खां को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर बशीर खां व इन्द्र शर्मा को लेते हुए सुरेन्द्र कालेरा विक्की पार्षद को छोड़ते हुए हनुमान मन्दिर राजकीय स्कूल को शामिल कर यशवन्त प्रदान व वैद्य मायाचन्द को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर राजकुमार शर्मा व नेतराम महिया मास्टर को लेते हुए बोर्डिंग हाउस की पीछे की दिवार को छोड़ते हुए मनीराम शर्मा, रामकिशन भूकर व सुदर्शन पटवारी को लेते हुए नरेन्द्र बुडानिया व चुन्नीराम मास्टर को छोड़ते हुए उत्तर की तरफ मुड़कर राजपाल धैतरवाल को शामिल करते हुए राजीलाल गुर्जर, हवासिंह भूकर व हरदत मास्टर व सांवरमल पनवाड़ी के नोहरे को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर मुन्शीराम मोठसरा, प्रतापसिंह भांभू व रामप्रताप फोबिया को शामिल करते हुए सांवरमल पनवाड़ी के नोहरा, मोतीजी का मकान छोड़ते हुए हरी सैनी को शामिल करते हुए उत्तर की तरफ मुड़कर सीधा चलकर डॉ. यसवन्त नेहरा को छोड़ते हुए शेराराम भूकर, राजीव कस्वां को लेते हुए फतेसिंह मोठसरा को छोड़ते हुए मांगीलाल ड्राईवर व धर्मराम प्रजापत को लेते हुए रणसिंह के नोहरे को व इन्द्र पटवारी को छोड़कर पूर्व की तरफ मुड़कर मगनाराम मुन्दलिया व रामपाल ढाका, बद्री प्रसाद छिम्पा को लेते हुए उत्तर की तरफ मुड़कर सम्पत सहारण को छोड़ते हुए सीधा चलते हुए सुनील पुत्र हेतराम को लेते हुए हिरालाल मास्टर को छोड़ते हुए कृष्ण/रामदयाल को लेते हुए लिलाधर बैनीवाल व सुनारों का मकान छोड़ते हुए पूर्व की ओर मुड़कर देवेन्द्र नेहरा को छोड़ते हुए मदन खिचड़ व नवीन झाझड़िया को लेते हुए हरपत कस्वां को छोड़ते हुए धर्मपाल गोदारा मास्टर को लेते हुए जयसिंह पुत्र रतीराम को छोड़ते हुए विकास कुमार पुत्र रमेश कुमार को लेते हुए सीधा मनीराम मेघवाल की कृषि भूमि छोड़ते हुए धर्मपाल पटवारी को शामिल कर पारिक टी-स्टॉल ओमजी के घर तक।

वार्ड नं. 39

रामनिवास चाचाण के नोहरे के पीछे से भगवानी देवी पत्नी राजेराम के घर से उत्तर की तरफ चलकर हाजी यासीन खां को छोड़ते हुए विद्या भारती स्कूल को लेते हुए सदीक खां तेली को

छोड़ते हुए नानू राम को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर मुखराम रणसिंह को छोड़ते हुए सीधा बुधराम मीणा व श्रवण सिंह सांखला को शामिल करते हुए उत्तर की तरफ इलाही बक्स को छोड़ते हुए शंकरलाल मीणा को शामिल कर सतपाल को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर चेताराम व कल्याण भूमि को छोड़ते हुए मूलचन्द्र मीणा व विरेन्द्र यादव को शामिल कर सीधे चलकर नोगजा पीर को लेते हुए विजयसिंह झोरड़ के नोहरे व महेन्द्र स्वामी को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर संजय गिदड़ा को शामिल करते हुए संतलाल वकील, जगदीश यादव का नोहरा व देशबंधु मोदी को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर रसलाना वालों का नोहरा को लेते हुए हरिराम जमादार व रामसिंह बिजारणिया को छोड़ते हुए लाला खदरिया को लेते हुए सुभाष मिस्त्री को छोड़ते हुए चांदबाई को शामिल कर सीधे भंवरलाल माली को छोड़ते हुए राजू सैनी व भजनदास कूटिया को शामिल कर दक्षिण की तरफ मुड़कर श्री राम लदड़ व विशाल पंवार को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर जगदीश अठवाल को शामिल कर रतनलाल, भूपसिंह ठेकेदार व नन्दलाल को छोड़ते हुए विश्वानाथ शर्मा होटल वाले को शामिल कर सीधे हरभज पुत्र निकूराम को लेते हुए चाचाणों का नोहरा छोड़ते हुए सीधा भगवानी देवी राजेराम तक।

#### वार्ड नं. 40

कल्याण भूमि से चलकर पानी की टंकी को लेते हुए उत्तर की ओर कृष्ण मास्टर व घड़सीराम कुम्हार व रमेश स्वामी पत्राकार की बाड़ी को छोड़ते हुए विजयसिंह की बाड़ी को लेते हुए बंशीधर शर्मा को छोड़ते हुए चेताराम पुत्र चुनीराम व शमशेर नीलगर को लेते हुए भंवर खां के प्लाट को छोड़ते हुए जाफर अली लीलगर व विमल कुम्हार को लेते हुए रेगरो के प्लाट व यूसफ खां लीलगर को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ इशाक पुत्र निजामदीन को छोड़ते हुए अलियास अली को लेते हुए मैन रोड़ सिरसा की तरफ मुड़कर सीधे सजन टी-स्टाल की दुकान को छोड़ते हुए बाईपास रोड़ हिसार की तरफ मुड़कर मनीराम चमार की भूमि व कूरड़ाराम के होटल बालाजी होटल को लेते हुए सैक्टर नं. 5 को छोड़ते हुए सीधा चलकर दक्षिण की तरफ मुड़कर पारीक टी स्टॉल ओमी शर्मा, अजय हॉटल को छोड़ते हुए मनीराम की भूमि को लेते हुए गोदारा कॉलोनी को छोड़ते हुए जयसिंह पुत्र रतीराम को लेते हुए पंघाल भवन विकास कुमार पुत्र रमेश कुमार को छोड़ते हुए हरपत कस्वां ठेकेदार को लेते हुए धर्मपाल मास्टर को छोड़ते हुए देवेन्द्र नेहरा को लेते हुए मदन खीचड़ व नवीन झाड़ड़िया को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर हरदत नेहरा को छोड़ते हुए लीलाधर बैनीवाल व सोनी के मकान को शामिल कर दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए कृष्ण/रामदयाल को छोड़ते हुए हीरालाल जी मास्टर को शामिल कर सुनील पुत्र हेतराम शर्मा को छोड़ते हुए राम प्रताप न्योल को लेते हुए बट्टी प्रसाद छिम्पा व रामपाल ढाका को छोड़ते हुए सम्पत सहारण को लेते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर मगनाराम मुन्दलिया को छोड़ते हुए इन्द्र पटवारी व रणसिंह के नोहरे को लेते हुए धर्मा प्रजापत को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर सुनीता मेडम को लेते हुए चन्द्रपूरी को छोड़ते हुए फतेहसिंह

मोठसरा को लेते हुए राजीव कस्वां को छोड़ते हुए यशवन्त नेहरा, सुरेश सैनी को लेते हुए हरि सैनी को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर मदन बिजारणियां, सांवरमल पनवाड़ी हरदत मास्टर को लेते हुए मुंशीराम मोठसरा, प्रतापसिंह भांभू व राम प्रताप भोभिया को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर चलकर राजपाल धेतरवाल रामजीलाल गुर्जर को छोड़ते हुए नागरमल सैनी के नोहरे को शामिल कर पश्चिम की ओर मुड़कर सीधे वीरसिंह धामू महेन्द्र स्वामी को लेते हुए हवासिंह व दड़बावालों के नोहरे को छोड़ते हुए उत्तर से पश्चिम की तरफ मुड़कर विजयसिंह झोरड़ के नोहरे को लेते हुए नोजगापीर व विरेन्द्र यादव को छोड़ते हुए कल्याण भूमि की पानी की टंकी तक।

अधिशायी अधिकारी  
नगरपालिका भादरा

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।